

Roll No.....

MAY 2010

PE- II

GROUP-I PAPER-3

BUSINESS AND CORPORATE LAWS

Total No. of Questions—10]

[Total No. of Printed Pages—10

Time Allowed—3 Hours

Maximum Marks—100

KBC

Answers to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi medium. If a candidate has not opted for Hindi medium, his answers in Hindi will not be valued.

Answer **all** questions.

Marks

1. (a) State with reasons whether there is any contract made in the following cases as per Indian Contract Act, 1872 : 5
- (i) J accepts an invitation to dinner but fails to attend.
 - (ii) J takes a seat in a Public Bus.
 - (iii) J tells M that N has expressed his willingness to marry her(M).
 - (iv) J bids at a Public auction.
 - (v) J puts three one Rupee coins in the slot of a Platform Ticket vending machine at the Railway station.
- (b) X places an order with Y to supply 30 bags of Wheat. Y sends 40 bags. What should X do ? Advise in the light of the provisions of the Sale of Goods Act, 1930. 5
2. (a) A, B and C enter into a partnership agreement to supply springs to car manufacturers, for a period of ten years. The business was run for five years resulting in loss each year. In spite of this, A insists on the business being continued for the remaining period. Can A so insist ? If he can, state the course, if any, open to B and C who are not anxious to run the business, with reference to the provisions of the Indian Partnership Act, 1932. 5

KBC

P. T. O.

KBC

Marks

- (b) A company which is covered by the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 was adjudged insolvent and an order for winding up was made. State, in this connection, whether the Provident Fund is attachable and whether the payment of Provident Fund contribution be considered as priority over other Debts of the Company. 5
3. (a) A appoints M, a minor, as his agent to sell his watch for cash at a price not less than Rs. 700. M sells it to D for Rs. 350. Is the sale valid ? Explain the legal position of M and D, referring to the provisions of the Indian Contract Act, 1872. 5
- (b) Raman is the payee of an order cheque. John steals the cheque and forges Raman's signatures and endorses the cheque in his own favour. John then further endorses the cheque to Anil, who takes the cheque in good faith and for valuable consideration. 5
- Examine the validity of the cheque as per provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881 and also state whether Anil can claim the privileges of a Holder in Due course.
4. (a) X sold a Motorcycle by auction. It was knocked down to Y who was allowed to take it away on giving a cheque for the price and signing an agreement that ownership should not pass to him until the cheque was cleared. The cheque was not cleared; but meanwhile Y had sold the motorcycle to Z. Is the sale valid ? Discuss with reference to the provisions of the Sale of Goods Act, 1930. 5
- (b) State the circumstances under which the Registrar of Co-operative Societies may cancel the Registration of a Co-operative Society registered under the Co-operative Societies Act, 1912. What is the effect of such a cancellation ? 5
5. (a) An employee working in an establishment commits fraud during the accounting year 2004-2005, but continues to work during the subsequent accounting years 2005-2006 and 2006-2007, and has a clean record during the subsequent years. On the basis of the fraud committed in 2004-2005, the employee is dismissed from service at the end of the accounting year 2006-2007. In this case, does he lose the Bonus for the accounting year of misconduct i.e. 2004-2005 or for all 3 accounting years ending with 2006-2007 ? Discuss in the light of the provisions of the Payment of Bonus Act, 1965. 5

- (b) A, B and C are partners. C retires and A and B take D into partnership, continuing the old firm name. A customer deals with the firm as newly constituted without having notice of the change, and has to recover a sum of Rs. 20,000. He wants to hold all the partners liable. Advise the customer as to his course of action, as per the terms of the Indian Partnership Act, 1932. 5
6. (a) A sold Oats to B by sample, delivery to be made at Park Railway Station. B resold the Oats to C. The Oats were delivered at Park Station and B after inspecting a sample of the Oats, sent it on to C. C rejected it as not being according to sample, whereupon B claimed to be entitled to reject it. Discuss the rights of B under the Sale of Goods Act, 1930. 5
- (b) X draws a bill on Y for Rs. 10,000 payable to his order. Y accepts the bill but subsequently dishonours it by non-payment. X sues Y on the bill, Y proves that it was accepted for value as of Rs. 8,000 and as accommodation to X for Rs. 2,000. How much can X recover from Y ? Decide with reference to the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881. 5
7. (a) Sparkle Infotech Ltd. was registered as a Public Company. There are 76 members in the company as stated below : 5
- | | |
|--|-----------|
| (i) Directors and their relatives | 36 |
| (ii) Employees | 12 |
| (iii) Ex-employees (Shares were allotted when they were employees) | 8 |
| (iv) 7 couples holding shares jointly in the names of husband and wife (7×2) | 14 |
| (v) Others | 6 |
| Total number of members | <u>76</u> |

The Board of Directors of the Company propose to convert it into a Private Company. Advise the Board of Directors about the steps to be taken for conversion into a Private Company including reduction in the number of members, if necessary, as per the Companies Act, 1956.

- (b) The promoters of your company incorporated on 10th September, 2009 has entered into a contract with A on 7th August, 2009 for supply of goods. After incorporation, your company does not want to proceed with the contract. As the Company's advisor, advise the management of the Company, referring to the provisions of the Companies Act, 1956. 5
8. (a) A Company by a special resolution declared that Rs. 50 out of each Rs. 100 share should be the reserve Capital. The company then issued debentures charging its undertaking and property including its uncalled capital. Two years later, the company went into liquidation. The debentureholders claimed a first charge on the reserve capital. Is their claim Justified ? Give reasons referring to the provisions of the Companies Act, 1956. 5
- (b) An allottee of shares in a company brought action against a Director in respect of false statements in prospectus. The director contended that the statements were prepared by the promoters and he has relied on them. Is the Director liable under the circumstances ? Decide referring to the provisions of the Companies Act, 1956. 5
9. (a) C, a shareholder, after appointing B as his proxy at a meeting of the company, himself attended the meeting and voted on a particular resolution. B thereafter claimed to exercise his vote. Examine his claim in the light of the provisions of the Companies Act, 1956. 5
- (b) State with reasons, whether the following statements are correct or incorrect, according to the Companies Act, 1956 : 5
- (i) A special resolution is one to pass, where the votes cast in favour must be twice the votes cast against it.
 - (ii) The statutory meeting is required to be held by all companies.
 - (iii) If a registerable charge is not registered, the debt is not recoverable.
 - (iv) In the case of Public issue of shares, the subscription list is to be kept open for a minimum period of 3 working days.
 - (v) Change of registered office of company from one place to another within a State requires confirmation by the Regional Director.

10. (a) The Board of Directors of Alltronix Ltd. have passed a resolution to the effect that no member who is indulging in activities detrimental to the interests of the company be permitted to examine the records or obtain certified copies thereof. A member of the company, considered by the company to be acting against the interests of the company, demands inspection of the register of members and minutes of General Meeting and certified true copies thereof. The company refuses the inspection etc. on the strength of the resolution referred to above. Examine the correctness of the refusal by the company referring to the provisions of the Companies Act, 1956. 5
- (b) The last General Meeting was conducted by the Chairman on 12th August, 2008. Thereafter, on 19th August, 2008, the Chairman died, before the minutes of the said meeting could be signed. In such an eventuality, how are the Minutes book to be dated and signed ? Discuss in terms of the provisions of the Companies Act, 1956. 5

(Hindi Version)

उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देना है।

वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है,

तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा।

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. (a) कारण सहित बताइए कि क्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थितियों में किसी अनुबन्ध का निर्माण हुआ है : 5
 - (i) जे एक रात्रि-भोज का आमन्त्रण स्वीकार करता है, किन्तु भोज में उपस्थित होने में असफल रहता है।
 - (ii) जे एक सार्वजनिक बस में स्थान ग्रहण करता है।
 - (iii) जे एम से कहता है कि एन ने उससे (एम से) विवाह करने की इच्छा प्रकट की है।
 - (iv) जे एक सार्वजनिक नीलामी में बोली लगाता है।
 - (v) रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट बेचने वाली मशीन के छिद्र में जे एक-एक रुपये के तीन सिक्के डालता है।
- (b) एक्स, वाई को 30 बोरे गोहूँ की आपूर्ति करने का आदेश देता है। वाई 40 बोरे भेज देता है। 5
एक्स को क्या करना चाहिए? वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे परामर्श दीजिए।
2. (a) ए, बी और सी दस वर्षों के लिए कार निर्माताओं को स्प्रिंग की आपूर्ति करने के लिए एक साझेदारी समझौता करते हैं। व्यापार पाँच वर्षों तक चलता और प्रत्येक वर्ष नुकसान हुआ। ऐसा होते हुए भी ए बचे हुए समय के लिए व्यापार चालू रखने पर जोर डालता है। क्या ए ऐसा जोर डाल सकता है? यदि वह ऐसा कर सकता है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह बताइए कि बी और सी जो व्यापार चालू रखने के इच्छुक नहीं हैं उनके सामने क्या विकल्प है। 5
- (b) एक कम्पनी जिसपर कर्मचारी भविष्य-निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है, दिवालिया घोषित हो जाती है और उसके समाधान का आदेश दे दिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह बताइए कि क्या भविष्य-निधि की कुर्की की जा सकती है और क्या भविष्य-निधि के अंशदान को अन्य ऋणों के भुगतान की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। 5

3. (a) ए. एम को जो एक अवयस्क है अपनी घड़ी कम-से-कम 700 रु. में नकद बेचने के लिए एजेण्ट के रूप में नियुक्त करता है। एम उसे डी को 350 रु. में बेच देता है। क्या यह विक्रय वैध है? भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के संदर्भ में एम और डी की वैधानिक स्थिति को समझाइए। 5
- (b) रमन एक आदेशित चेक का आदाता है। जौन चेक चुरा लेता है और रमन के हस्ताक्षर की जालसाजी करता है और चेक का पृष्ठांकन अपने पक्ष में कर लेता है। जौन उसके पश्चात् उस चेक को अनिल के नाम में पृष्ठांकित कर देता है, जो उसे सद्विश्वास और मूल्यवान प्रतिफल के बदले प्राप्त करता है। 5
- परक्राम्य-विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अन्तर्गत चेक की वैधता की परीक्षा कीजिए और यह भी बताइए कि क्या अनिल यथाविधि धारक के विशेषाधिकारों का दावा कर सकता है।
4. (a) एक्स ने एक मोटर साइकिल का विक्रय नीलामी द्वारा किया। यह विक्रय वाई के पक्ष में हथौड़ा मारकर पूर्ण किया गया और उसे ले जाने की स्वीकृति मूल्य के बदले चेक देने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर कि स्वामित्व तबतक हस्तांतरित नहीं होगा, जबतक चेक का भुगतान नहीं हो जाता, किन्तु चेक का भुगतान नहीं हुआ। इसी बीच वाई ने मोटर साइकिल जेड को बेच दी थी। क्या यह विक्रय वैध है? वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अन्तर्गत विवेचना कीजिए। 5
- (b) उन परिस्थितियों को बताइए जिनके अन्तर्गत सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी कम्पनी के पंजीकरण के रजिस्ट्रार रद्द कर सकता है। ऐसे रद्दकरण का क्या प्रभाव है? 5
5. (a) एक प्रतिष्ठान में काम करने वाला एक कर्मचारी लेखा-वर्ष 2004-2005 में जालसाजी करता है। किन्तु वह अगले लेखा-वर्षों 2005-2006 और 2006-2007 में भी काम करता रहता है और अगले वर्षों में उसका रिकार्ड साफ है। 2004-2005 में की गई जालसाजी के आधार पर उस कर्मचारी को 2006-2007 के अन्त में सेवा से हटा दिया जाता है। 5
- इस स्थिति में क्या उसे दुराचार वाला लेखा-वर्ष जोकि 2004-2005 है का बोनस नहीं दिया जाएगा या 2006-2007 में समाप्त होने वाले सभी तीन लेखा वर्षों का बोनस नहीं दिया जाएगा? बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णीत कीजिए।
- (b) ए, बी और सी साझेदार हैं। सी अवकाश प्राप्त कर लेता है। ए और बी पुराने फर्म का नाम जारी रखते हुए डी को साझेदारी में सम्मिलित कर लेते हैं। एक ग्राहक फर्म में बदलाव की जानकारी के बिना नये फर्म से व्यवहार करता है और उसे फर्म से 20,000 रु. प्राप्त करने हैं। वह सभी साझेदारों को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में परमर्श दीजिए। 5

6. (a) ए ने बी को नमूने के आधार पर जई (OAT) बेची, जिसकी सुपुर्दगी पार्क रेलवे स्टेशन पर दी जानी थी। बी ने जई को सी को बेच दिया। जई की सुपुर्दगी पार्क रेलवे स्टेशन पर दी गई और बी ने जई के नमूने की जाँच करने के बाद सी को भेज दिया। सी ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह नमूने के अनुसार नहीं है। इसके बाद बी ने उसे अस्वीकार करने का दावा किया। वस्तु-विक्रय अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत बी के अधिकारों की विवेचना कीजिए। 5

- (b) एक्स वाई पर उसके द्वारा आदेश पर भुगतान योग्य 10,000 रु. के लिए एक विनिमय-पत्र लिखता है। वाई विनिमय-पत्र पर स्वीकृति प्रदान कर देता है, किन्तु बाद में भुगतान नहीं करके विनिमय-पत्र का अनादरण कर देता है। एक्स विनिमय-पत्र के लिए वाई पर मुकदमा कर देता है। वाई यह प्रमाणित कर देता है कि इसपर 8,000 रु. के लिए मूल्य के लिए और 2,000 रु. के लिए पारस्परिक सहायता के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। 5

एक्स वाई से कितनी रकम प्राप्त कर सकता है? परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के आधार पर इसे निर्णीत कीजिए।

7. (a) स्पाकल इन्फोटेक लिमिटेड का एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में पंजीकरण हुआ था। कम्पनी में नीचे लिखे अनुसार 76 सदस्य हैं :

(i) संचालक और उनके सम्बन्धी	36
(ii) कर्मचारी	12
(iii) पूर्व-कर्मचारी (Ex-employees) (उन्हें अंश उस समय आवंटित किए गए थे, जब वे कर्मचारी थे)	8
(iv) 7 दम्पति (जिनके पास पति-पत्नी के संयुक्त नामों में अंश हैं) (7×2)	14
(v) अन्य	6
सदस्यों की कुल संख्या	76

कम्पनी का संचालक-मण्डल इस कम्पनी को निजी कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार इसे निजी कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में परामर्श दीजिए, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो सदस्यों की संख्या कम करना सम्मिलित हो।

- (b) आपकी कम्पनी जिसका सम्मेलन 10 सितम्बर, 2009 को हुआ था, उसके प्रवर्तकों ने ए के साथ 7 अगस्त, 2009 को वस्तुओं की पूर्ति के लिए एक अनुबन्ध किया था। सम्मेलन के पश्चात् कम्पनी इस अनुबन्ध को जारी रखना नहीं चाहती। 5

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में कम्पनी के परामर्शदाता के रूप में, कम्पनी के प्रबन्ध को परामर्श दीजिए।

8. (a) एक कम्पनी ने विशेष प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा की कि 100 रु. के प्रत्येक अंश में से 50 रु. संचित पूँजी होगी। कम्पनी ने उसके पश्चात् अपनी सम्पत्ति और व्यवसाय (जिसमें नहीं माँगी गई पूँजी भी सम्मिलित थी), के ऊपर प्रभार उत्पन्न करके ऋण-पत्र जारी किए। दो वर्षों के बाद कम्पनी के समापन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। 5

ऋण-पत्र धारकों ने कम्पनी की संचित पूँजी पर पहले प्रभार का दावा किया। क्या उनका दावा न्याय-संगत है? कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कारण बताइए।

- (b) एक कम्पनी के अंशों के आवंटिती ने कम्पनी के एक संचालक पर प्रविवरण में मिथ्या कथनों के लिए कार्यवाही की। संचालक ने यह तर्क दिया कि विवरण प्रवर्तकों द्वारा तैयार किए गए थे और उसने उनपर भरोसा किया था। क्या संचालक इन परिस्थितियों में दायी है? कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर निर्णय दीजिए। 5

9. (a) एक अंशधारी सी ने बी को अपना प्रॉक्सी नियुक्त करने के पश्चात् स्वयं सभा में उपस्थित हो गया और एक विशिष्ट प्रस्ताव पर मतदान किया। उसके बाद बी ने मतदान करने का दावा किया। 5

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उसके दावे की परीक्षा कीजिए।

- (b) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कारण सहित यह बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य : 5

(i) एक विशेष प्रस्ताव वह है जिसे पारित होने के लिए इसके पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उसके विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या से दुगुनी होनी चाहिए।

(ii) वैधानिक सभा सभी कम्पनियों द्वारा बुलाया जाना आवश्यक है।

(iii) यदि एक पंजीकरणीय प्रभार पंजीकृत नहीं है, तो ऋण पुनः वापस योग्य नहीं है।

(iv) अंशों के सार्वजनिक जारी (Issue) की स्थिति में अभिदान सूची को कम-से-कम तीन कार्यशील दिनों तक खुला रखना आवश्यक है।

(v) एक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का उसी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के लिए मण्डलीय (Regional) संचालक की स्वीकृति आवश्यक है।

10. (a) आल्ट्रोनिक्स लिमिटेड के संचालक-मण्डल ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी सदस्य जो कम्पनी के हितों के विरुद्ध कार्य करेगा उसे कम्पनी के रिकार्ड देखने और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेने की आज्ञा नहीं होगी। 5

एक सदस्य जिसे कम्पनी ने माना था कि वह कम्पनी के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है; उसने कम्पनी से सदस्यों के रजिस्टर और साधारण सभा के मिनट के निरीक्षण और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। कम्पनी ने निरीक्षण इत्यादि की आज्ञा नहीं दी।

उपर्युक्त प्रस्ताव की शक्ति के आधार पर तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में कम्पनी द्वारा मना करने की प्रमाणिकता का परीक्षण कीजिए।

- (b) अध्यक्ष द्वारा पिछली साधारण सभा 12 अगस्त, 2008 को संचालित की गई थी। उसके पश्चात् 19 अगस्त, 2008 को उस सभा के मिनट पर हस्ताक्षर होने से पहले ही अध्यक्ष की मृत्यु हो गई। इस प्रकार की घटना के घटित होने पर मिनट बुक पर कैसे तिथि डाली जाती है और कैसे हस्ताक्षर किए जाते हैं? कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार विवेचना कीजिए। 5